



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2016/पौष 18, 1937

No. 52]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2016/ PAUSA 18, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2016

**का.आ.58(अ)**— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2553 (अ), तारीख 18 सितम्बर, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (ए) (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 347) के छिन्दवाड़ा/सिवनी जिला सीमा से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (ए) की सिवनी सेक्शन तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 30 सितम्बर, 2015 को "संवाद कुंज" और तारीख 9 अक्टूबर, 2015 को "दैनिक भास्कर" में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

**अनुसूची**

मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69(क) (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 347) के छिन्दवाड़ा/सिवनी जिला सीमा से सिवनी खंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	सिवनी	सिवनी	फुलारा	45/3	निजी	सिंचित	900	0.090	अनिता पत्नि अरविन्द कुमार कायस्थ
				46/1	निजी	सिंचित	2240	0.224	नारायण पुत्र चन्द्रिका प्रसाद कायस्थ
				46/2	निजी	सिंचित	1000	0.100	नितिन कुमार पुत्र नारायण प्रसाद कायस्थ
				52	निजी	सिंचित	160	0.016	मु. गीता पुत्री एम. एल. सक्सेना
				77	निजी	सिंचित	700	0.070	अरविंद सक्सेना पिता चन्द्रिका प्रसाद सक्सेना
				78/1	निजी	सिंचित	660	0.066	भोजे पिता परसु
				78/2	निजी	सिंचित	860	0.086	ओमकार पिता भोजे
				78/5	निजी	सिंचित	590	0.059	संध्या पति राजेश थठरे
कुल योग							7110	0.711	

[ फा.सं. भाराराप्रा/पीआईयू/सीएचडब्लू/एलए/2015/एफ.टी.एस-1357]

माया प्रकाश, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th January, 2016

**S.O. 58 (E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2553 (E) dated 18 September, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/ four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 69 (A) [New National Highway No. 347] on the stretch of land from Chhindwara/Seoni District Border to Seoni Section of NH-69(A) in District Seoni in the state of Madhya Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Samvadkunj”, dated the 30 September, 2015 and in “Dainik Bhaskar”, dated the 9 October, 2015; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land of Chhindwara/Seoni District Border to Seoni Section on the National Highway No. 69(A) (New National Highway No. 347) in the State of Madhya Pradesh.

Serial number	Name of the district	Name of the Tehasil/ Taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)	Area (in herctares)	Name of the persons interested
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	Seoni	Seoni	Phulara	45/3	Private	Irrigated	900	0.090	Anita W/o Arvind Kumar Kayasth
				46/1	Private	Irrigated	2240	0.224	Narayan S/o Chandrika Prasad Kayasth
				46/2	Private	Irrigated	1000	0.100	Nitin Kumar S/o Narayan Prasad Kayasth
				52	Private	Irrigated	160	0.016	Mu. Geeta D/o M.L. Saxena
				77	Private	Irrigated	700	0.070	Arvind Saxena S/o Chandrika Prasad Saxena
				78/1	Private	Irrigated	660	0.066	Bhoje S/o Parsu
				78/2	Private	Irrigated	860	0.086	Omkar S/o Bhoje
				78/5	Private	Irrigated	590	0.059	Sandhya W/o Rajesh Thatere
<b>Total</b>							7110	0.711	

[F.No. NHAI/PIU/CHW/LA/2015/FTS-1357]

MAYA PRAKASH, Director